

सही नहीं है कि आज जूट के दाम नीचे जा रहे हैं। जूट के जितने दाम आज हैं उतने दाम देश के इतिहास में कभी नहीं थे। पिछले १, २ साल में जूट के दाम बढ़े हैं। जहाँ एक साल पहले फ्रांसम वोटमस के दाम ३१ रुपये ८ आने थे वहाँ अब उस के दाम करीब करीब ५६ रुपये हैं।

Shri Ranga: Are any steps being taken in consultation and collaboration with the Food and Agriculture Ministry to step up the production of jute in Orissa and Andhra where at an earlier stage a larger production was made possible by an assurance of economic prices for jute?

Shri Manubhai Shah: All those steps are being taken. Every area which is good and vulnerable for jute production will be given all encouragement.

Shri Ranga: Is it not a fact that the earlier practice has been abandoned and no assurance is being given to those people about payment of any stabilised price for jute?

Shri Manubhai Shah: I have already indicated that the ruling prices of jute have been the highest in record, and these are highly uneconomic prices. As my hon. friend Shri Guha pointed out rightly, nothing should be done in a manner which will jeopardise the greatest foreign exchange earning commodity for the country, namely, jute and jute goods.

Shri Aurobindo Ghosal: May I know whether any compensation will be given to the workers in case the jute mills are closed, because they have already suffered due to the power cut?

Shri Manubhai Shah: All those relevant factors will be taken into consideration. I may recall, Sir, that there is a standing agreement about all these matters.

Shri Hem Barua: In view of the fact that these mills have already sealed a certain percentage of loomage and Government have, at the same time, also agreed to an additional

sealing of 8 per cent loomage, may I know whether these steps are not adequate for the Mill Association and whether they are not creating artificial conditions by closing down the mills?

Shri Manubhai Shah: There has been no closure, as I have already said. All these matters will be properly considered before any decision is taken. As a matter of fact, unsealing had taken place to some extent. At one stage, as the House will remember, 19 per cent had been closed, and it has been reduced to 12 per cent. The working hours however had to be reduced. All these will be considered when the situation is reviewed.

Indian Troops in Congo

*1946. **Shri D. C. Sharma:** Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Indian troops were prevented from entering Ndjill airport by the Congolese soldiers at gunpoint; and

(b) if so, the reactions of the Government of India thereto?

The Deputy Minister of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) and (b). No, Sir. No such incident as alleged seems to have taken place at the Ndjill (Leopoldville) airport.

Indian Nationals in Cuba

+

*1946-A. { **Shri P. G. Deb:**
Shri Arjun Singh
Bhadauria:

Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) whether the Indian nationals in Cuba are safe; and

(b) if so, the details of the same?

The Deputy Minister of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) and (b). Our Embassy in Washington is taking such action as is possible but they have pointed out that it is extremely difficult to make enquiries owing to interruption of communications. They have records of 19 per-

sons of Indian origin, but their nationalities and precise whereabouts in Cuba are not known to them. There does not appear to be any danger to Indian nationals in Cuba.

Shri Tangaman: May I know whether we have received reports as to the number of Indian nationals in addition to these 19 persons of Indian descent who are at present in Cuba?

Shrimati Lakshmi Menon: No, Sir.

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS

काश्मीर

प्र० सू० प्र० १७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ अप्रैल, के जालन्धर से प्रकाशित होने वाले "प्रताप" (उर्दू) और "बीर प्रताप" (हिन्दी) में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि भ्रकाली बल के एक सदस्य श्रीर जम्मू-काश्मीर के भ्रकाली दल के अध्यक्ष श्री सन्तसिंह तेग ने स्यालकोट में एक ऐसा वक्तव्य दिया है जिस में उन्होंने काश्मीर की समस्या का समाधान केवल जनमत को ही बताया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री सन्तसिंह तेग ने धारण कहा है कि काश्मीरी जनता अपनी गुलामी के दिनों से ऊब चुकी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री सन्तसिंह तेग सियालकोट में बाबेबी बेर नामक मुहद्वारे में तीर्थ यात्रा के लिये गये थे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन्होंने वहां अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि यदि पंजाबी सूबे का निर्माण ही भ्र नहीं किया गया तो पंजाब के सिक्ख अधिक देर तक इस गुलामी को महसूस नहीं कर सकेंगे ; और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि २५ अप्रैल, के सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर, जंग, नयी रोशनी आदि कई समाचार-पत्रों ने इस समाचार को प्रकाशित किया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ङ). सरकार ने पाकिस्तानी अखबारों की उन रिपोर्टों को देखा है जो सरदार सन्त सिंह तेग द्वारा दिए गए किन्हीं बयानों के बारे में हैं। ये रिपोर्टें भारत के कुछ अखबारों ने भी छापी हैं। इन रिपोर्टों के कुछ व्योरो में भिन्नता है लेकिन मोटे तौर पर उनका रूप वही है जो प्रश्न में बताया गया है।

सरदार सन्त सिंह तेग उस दल के सदस्य थे जो पाकिस्तान-स्थित गुहद्वारों की यात्रा के लिए गया था।

(a) to (e). The Government have seen reports in Pakistani newspapers about some statements made by Sardar Sant Singh Teg. These reports have been reproduced in some newspapers in India also. The reports vary in small details but broadly they are on the lines indicated in the question.

Sardar Sant Singh Teg was a member of the party which went on pilgrimage to Gurudwaras in Pakistan.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या श्री पिछले दिनों प्रधान मंत्री महोदय ने पंजाब के कुछ जिम्मेदार मिनिस्ट्रों को भ्रकाली आन्दोलन के सम्बन्ध में यह कहते हुए सुना कि पाकिस्तान में भी इसको हवा मिल रही है और क्या इस प्रकार के वक्तव्यों से उसकी क्षुब्धता मिलती जुलती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अब मुझे इसका जबाब देना तो जरा मुश्किल है लेकिन जिस वक्तव्य का हवाला माननीय सदस्य के सवाल में है, जाहिर है कि सरकार सन्तसिंह तेग का वह बयान हमारी राय